

सरकार माफ़ हो गुस्ताख़ी, कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ,  
Sarkār māf ho gustākḥī, kuch khoṭī kharī sunātā hūm  
*My Lord, forgive my rudeness, but I am going to tell You something very bluntly.*

मैं तेरा हूँ तेरा होकर, दर दर की ठोकर खाता हूँ ।  
Maim terā hūm terā ho kar, dar dar kī ṭhokar khātā hūm  
*I am Yours yet I am wandering here and there suffering abuse in the world.*

तू समरथ वारिस है फिर भी, लावारिस मैं कहलाता हूँ,  
Tū samarath vāris hai phir bhī, lāvāris maim kaihlātā hūm  
*You are my almighty guardian, yet I am known as an orphan.*

तू व्यापक हर ज़र्रे में है, पर दीदार न तेरा पाता हूँ ।  
Tū vyāpak har zarre meṁ hai, par dīdār na terā pātā hūm  
*You pervade each and every particle yet I cannot see You anywhere.*

है करम तेरा मुझ पर बेहद, यह भी अनुमान लगाता हूँ,  
Hai karam terā mujh par behad, yah bhī anumān lagātā hūm  
*I do realize that You have been extremely merciful to me.*

पर इस चंचल मन पर रहवर, अधिकार नहीं कर पाता हूँ ।  
Par is caṁcal mana par rahavar, adhikār nahīm kar pātā hūm  
*But my Lord I am unable to gain control over my restless mind.*

मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाता हूँ,  
Mana meṁ raihatī duniyādārī, bagulā sā dhyān lagātā hūm  
*My mind is full of worldly affairs and my meditation is like that of a crane (standing on one leg, seemingly meditating in water but really just trying to fool the fish and make a meal out of it).*

तुझको खुश करने की खातिर, आँसू भी नहीं बहाता हूँ ।  
Tujh ko khuś karane kī khātir, āmsū bhī nahīm bahātā hūm  
*I do not ever shed tears with the purpose to please You.*

कर नज़रे-इनायत करुणाकर, मैं माया से घबराता हूँ,  
Kar nazare-ināyat karuṇākar, maim māyā se ghabarātā hūm  
*O Shyamsundar! Cast Your merciful glance towards me and grace me as I am very afraid of Your maya shakti.*

झूठा ही सही पर नाम 'कपालु' लेकर तुझे बुलाता हूँ ॥  
Jhūṭhā hī sahī par nām 'Kṛpālu' le kar tujhe bulātā hūm  
*Says Shri 'Kripalu,' "I may be an impostor, but still I do call out to You as my savior."*